

Lev

Chapter 8

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: מֹשֶׁה מִן-הָאֱלֹהִים יְהוָה וְיַהֲוֶה אֹרֶךְ יָמָיו
कहते-हुए मूसा से- यहीवा और-बोला
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H3068](#) [H1696](#)

यहोवा ने मूसा से कहा,

2 קָח לֶךָ אֶת-הָאֶהָרֹן וְאֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת-אֶתְּךָ וְאֶת-הַבְּנוֹתָיִם וְאֶת-הַשֶּׁמֶן הַמְּשֻׁחַ
अभिषेक-का तेल और- वस्त्रों-को और- उसके-साथ उसके-पुत्रों-को और- हारून-को — ले
[H0853](#) [H0853](#) [H0853](#) [H0854](#) [H0853](#) [H0175](#) [H0853](#) [H3947](#)

וְאֶת-בַּיִתְּךָ וְאֶת-הַחֹטָאִת וְאֶת-הַבַּיִתְּךָ וְאֶת-הַבַּיִתְּךָ וְאֶת-הַבַּיִתְּךָ
अखमीरी-रोटियों-की टोकरी और- मेंदों-को दोनों और- पापबलि-का बैल और-
[H4682](#) [H5536](#) [H0853](#) [H8147](#) [H0853](#) [H6499](#) [H0853](#)

“हारून और उसके साथ उके पुत्रों, उनके वस्त्र, अभिषेक का तेल, पापबलि का बैल, दो भेड़ें और अखमीरी मैदे के फुलके की टोकरी लो,

3 וְאֶת-כֹּל-הָעֵדָה מְזִלָּה וְאֶת-כָּל-הַקֹּהֵל וְאֶת-כָּל-מִלְּאָכָה
और- सारी- मंडली-को इकट्ठा-कर से- द्वार-पर तंबू
[H0853](#) [H3605](#) [H5712](#) [H6950](#) [H0413](#) [H6607](#) [H0168](#) [H4150](#)

तब मिलापवाले तम्बू के द्वार पर लोगों को एक साथ लाओ।”

4 וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֵת-מֹשֶׁה וְאֶת-הָעֵדָה וְאֶת-כָּל-הַקֹּהֵל
और-किया मूसा-ने आज्ञा-दी यहोवा-ने उसे और-इकट्ठी-हुई और-इकट्ठी-हुई द्वार-पर तंबू
[H4872](#) [H6680](#) [H3068](#) [H0853](#) [H6950](#) [H5712](#) [H0413](#) [H6607](#) [H0168](#)

מִלְּאָכָה :
मिलाप-के
[H4150](#)

मूसा ने वही किया जो यहोवा ने उसे आदेश दिया। लोगो मिलापवाले तम्बू के द्वार पर एक साथ मिले।

5 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה מִן-הָאֱלֹהִים יְהוָה וְיַהֲוֶה אֹרֶךְ יָמָיו
और-कहा मूसा-ने से- मंडली-को यह मंडली-को आज्ञा-दी यहोवा-ने करने-के-लिए
[H0559](#) [H4872](#) [H0413](#) [H5712](#) [H2088](#) [H1697](#) [H6680](#) [H3068](#)

तब मूसा ने लोगों से कहा, “यह वही है जोसे करने का आदेश यहोवा ने दिया है।”

6 וַיִּקְרַב מֹשֶׁה אֶת-הָאֶהָרֹן וְאֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת-אֶתְּךָ וְאֶת-הַבְּנוֹתָיִם
और-निकट-लाया मूसा-ने और- हारून-को — और- उसके-पुत्रों-को और- धोया उन्हें पानी-से
[H7126](#) [H4872](#) [H0853](#) [H0175](#) [H0853](#) [H7364](#) [H0853](#) [H4325](#)

तब मूसा, हारून और उसके पुत्रों को लाया। उसने उन्हें पानी से नहलया।

7 וַיִּתֵּן יְהוָה אֶת-הָאֶהָרֹן וְאֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת-אֶתְּךָ וְאֶת-הַבְּנוֹתָיִם
और-रखा और-रखा उस-पर उस-पर और-बाँधा और-बाँधा और-पहनाया और-पहनाया पटके-से
[H5414](#) [H0853](#) [H3801](#) [H2296](#) [H0853](#) [H0073](#) [H3847](#) [H0853](#) [H0854](#) [H4598](#)

וַיִּתֵּן יְהוָה אֶת-הָאֶהָרֹן וְאֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת-אֶתְּךָ וְאֶת-הַבְּנוֹתָיִם
और-रखा और-रखा उस-पर उस-पर और-बाँधा और-बाँधा एपोद-की बुनी-हुई-पट्टी-से
[H5414](#) [H0853](#) [H0646](#) [H2296](#) [H0853](#) [H2805](#) [H0646](#) [H0640](#)

तब मूसा ने हारून को अन्तःवस्त्र पहनाया। मूसा ने हारून के चारों ओर एक पेटी बाँधी। तब मूसा ने हारून को बाहरी लबादा पहनाया। इसके ऊपर मूसा ने हारून को चोगा पहनाया और उस पर एपोद पहनाई, फिर उस पर सुन्दर पटुका बाँधा।

20 וְאֶת־ הָאֵילִם וְאֶת־ הַתְּחָמִים וְאֶת־ הַגָּחַל וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים

הַפָּרָר:
चर्बी-को
H6309

मूसा ने मेढ़े को टुकड़ों में काटा। मूसा ने भीतरी भागों और पैरों को पानी से धोया। तब मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया। मूसा ने उसका सिर, टुकड़े और चर्बी को जलाया। यह आग द्वारा होमबलि थी। यह यहोवा के लिए सुगन्ध थी। मूसा ने यहोवा के आदेश के अनुसार वे सबकाम किए।

21 וְאֶת־ הַקָּרֶב וְאֶת־ הַכֶּרְעִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים

הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים

אֶת־ מֹשֶׁה:
मूसा को-
H4872 H0853

मूसा ने मेढ़े को टुकड़ों में काटा। मूसा ने भीतरी भागों और पैरों को पानी से धोया। तब मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया। मूसा ने उसका सिर, टुकड़े और चर्बी को जलाया। यह आग द्वारा होमबलि थी। यह यहोवा के लिए सुगन्ध थी। मूसा ने यहोवा के आदेश के अनुसार वे सबकाम किए।

22 וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים וְאֶת־ הַחֲרָבִים

יְדִיָּהֶם וְעַל־ רֹאשׁ הָאֵילִם:
अपने-हाथों-को
H3027

तब मूसा दूसरे मेढ़े को लाया। इस मेढ़े का उपयोग हासून और उसके पुत्रों को याजक बनाने के लिए किया गया। हासून और उसके पुत्रों ने अनपे हाथ मेढ़े के सिर पर रखे।

23 וַיִּשְׁחָט וַיִּקַּח מֹשֶׁה וַיִּקַּח מֹשֶׁה וַיִּקַּח מֹשֶׁה וַיִּקַּח מֹשֶׁה

וְעַל־ בְּהֵן וְעַל־ בְּהֵן וְעַל־ בְּהֵן וְעַל־ בְּהֵן

तब मूसा ने मेढ़े को मारा। उसने इसका कुछ खून हासून के कान के निचले सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे पर और हासून के दाएं पैर के अंगूठे पर लगाया।

24 וַיִּקַּח וַיִּקַּח וַיִּקַּח וַיִּקַּח וַיִּקַּח

וְעַל־ בְּהֵן וְעַל־ בְּהֵן וְעַל־ בְּהֵן

וַיִּזְרֹק וְעַל־ הַמִּזְבֵּחַ וְעַל־ הַמִּזְבֵּחַ

तब मूसा हासून के पुत्रों को वेदी के पास लाया। मूसा ने कुछ खून उनके दाएं कान के निचले सिरे पर, दाएं हाथ के अंगूठे पर और उनके दाएं पैर के अंगूठों पर लगाया। तब मूसा ने वेदी के चारों ओर खून डाला।

עַל- וַיִּזְ וְהַמִּזְבֵּחַ עַל- אֲשֶׁר וּמִן- הַמִּשְׁחָה מִשְׁמֵן מִשָּׁה וַיִּקַּח 30
पर- और-छिड़का वेदी-पर-था पर- जो लहू-को और-से- अभिषेक-के तेल-से मूसा-ने और-लिया
H4196 H1818 H8081 H4872 H3947

אֶתּוֹ בְּנָיו בְּנָיו וְעַל- בְּנָיו עַל- בְּנָיו וְעַל- אֶתְּוֹ 30
उसके-साथ उसके-पुत्रों-के वस्त्रों-के और-पर- उसके-पुत्रों-पर और-पर- उसके-वस्त्रों-पर पर- हारून-पर
H0854 H0175

בְּנָיו בְּנָיו וְאֶת- בְּנָיו וְאֶת- בְּנָיו אֶתְּוֹ אֶתְּוֹ וַיִּקְרַשׁ 30
उनके-पुत्रों-के वस्त्रों-को और- उसके-पुत्रों-को और- उसके-वस्त्रों-को — हारून-को — और-पवित्र-किया
H0853 H0853 H0853 H0175 H0853 H6942

אֶתּוֹ :
उसके-साथ
H0854

मूसा ने अभिषेक का कुछ तेल और वेदी पर का कुछ खून लिया। मूसा ने उस में से थोड़ा हारून और उसके वस्त्रों पर छिड़का और कुछ हारून के उन पुत्रों पर जो उसके साथ थे और कुछ उनके वस्त्रों पर छिड़का। इस प्रकार मूसा ने हारून, उसके वस्त्रों, उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों को पवित्र बनाया।

וַיֹּאמֶר מִשָּׁה אֶל- אֶתְּוֹ וְאֶל- בְּנָיו בְּשִׁלּוֹ אֶת- הַבָּשָׂר פְּתַח אֹהֶל 31
और-कहा मूसा-ने से- हारून और-से- और-पुत्रों-को पकाओ — माँस-को द्वार-पर तंबू
H0559 H4872 H0413 H0175 H0413 H1310 H0853 H1320 H6607 H0168

מִוֶּעֵד מִוֶּעֵד וְשָׁם תֹּאכְלוּ אֹתוֹ וְאֶת- הַלֶּחֶם אֲשֶׁר בְּסֹלֶ וְהַמְּלֵאִים כְּאִשָּׁר 31
मिलाप-के और-वहाँ और-खाओ तुम-खाओ उसे और- रोटि-को जो टोकरी-में-है संस्कारबलियों-की जैसा
H4150 H8033 H0398 H0853 H0853 H3899 H5536 H4394

צִוִּיתִי לְאֹמֶר אֶתְּוֹ וּבְנָיו יֹאכְלוּהוּ :
मैंने-आज्ञा-दी कहते-हुए हारून और-उसके-पुत्र उसे-खाए
H6680 H0559 H0175 H0398

तब मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, “क्या तुम्हें मेरा आदेश याद है? मैंने कहा, ‘हारून और उसके पुत्र इन चीजों को खाएंगे।’ अतः याजक नियुक्ति संस्कार से रोटि की टोकरी और माँस लो। मिलापवाले तंबू के द्वार पर उस माँस को उबालो। तुम उस माँस और उस रोटि को उसी स्थान पर खाओगे।

וַהֲנוֹתָר וְהַנּוֹתָר בְּבֶשֶׂר וּבְלֶחֶם בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ : 32
और-बचा-हुआ और-रोटी-में माँस-में और-जलाओ
H3498 H1320 H3899 H0784 H8313

यदि कुछ मांस या रोटि बच जाए तो उसे जला देना।

וּמִפְתָּח וּמִפְתָּח אֹהֶל מִוֶּעֵד לֹא תִצָּאוּ שְׁבַעַת יָמִים עַד יוֹם מְלֵאֵת יָמֵי 33
और-द्वार-से तंबू मिलाप-के नहीं तुम-निकलो सात दिनों तक दिन-के पूरा-होने दिनों
H6607 H0168 H4150 H3808 H3318 H7651 H3117 H5704 H3117 H4390 H3117

מִלֵּאֵיכֶם מִלֵּאֵיכֶם כִּי שְׁבַעַת יָמִים יִמְלֵא יוֹם אֶת- יְדֵיכֶם :
तुम्हारी-संस्कारबलियों-के क्योंकि सात दिनों वह-भरे — तुम्हारे-हाथों-को
H4394 H7651 H3117 H4390 H0853 H3027

याजक नियुक्ति संस्कार सात दिन तक चलेगा। तुम मिलापवाल तंबू से तब तक नहीं जाओगे जब तक तुमहार याजक नियुक्ति संस्कार का समय पूरा नहीं हो जाता।

כְּאִשָּׁר עָשָׂה בְּיוֹם הַזֶּה הָיָה צִוְּהָ יְהוָה לְעֵשֶׂת לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם : 34
जैसा उसने-किया दिन-में इस आज्ञा-दी यहोवा-ने करने-के-लिए कर-के-लिए प्रायश्चित-करने-के-लिए तुम-पर
H3117 H2088 H6680 H3068

यहोवा ने उन कामों को करने का आदेश दिया था जो आज किए गए उन्होंने तुम्हारे पापों के भुगतान के लिए यह आदेश दिया था।

35 וַתִּתֵּן אֱלֹהִים מוֹעֵד מִלִּפְנֵי תְּשֻׁבָה יוֹמָם וּלְלַיְלָה שִׁבְעַת יָמִים וַשְׁמֵרְתֶּם אֹתָם מִשְׁמֵרֶת
 और-द्वार-पर तंबू के तम-मिलाप-के तुम-बैठो दिन और-रात सात दिनों और-तुम-रखो — पहरा
[H0168](#) [H6607](#) [H4150](#) [H3427](#) [H3119](#) [H3915](#) [H7651](#) [H3117](#) [H8104](#) [H0853](#) [H4931](#)

יְהוָה וְלֹא תִמְוֹתוּ כִּי- כֵּן זָנִיתִי:
 यहीवा-की और-नहीं तुम-मरो क्योंकि- ऐसे मुझे-आज्ञा-दी-गई
[H3068](#) [H3808](#) [H4191](#) [H6680](#)

तुम्हें मिलापवाले तंबू के द्वार पर सात दिन तक, पूरे दिन रात रहना चाहिए। यदि तुम यहीवा का आदेश नहीं मानते हो तो तुम मर जाओगे। यहीवा ने मुझे ये आदेश दिया था।”

36 וַיַּעַשׂ אֱהָרֹן וּבָנָיו אֶת-כָּל-הַדְּבָרִים אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה בְּיָד־
 और-किया और-उसके-पुत्रों-ने हासून-ने सब- बातों-को जो- आज्ञा-दी यहीवा-ने हाथ-से-
[H0175](#) [H0853](#) [H3605](#) [H1697](#) [H6680](#) [H3068](#) [H3027](#)

מֹשֶׁה:
 मूसा-के
[H4872](#)

इसलिए हासून और उसके पुत्रों ने वह सब कुछ किया जिसे करने का आदेश यहीवा ने मूसा को दिया था।